

## प्रेस नोट दिनांक-01.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा रात्रि में कर्वी शहर के ट्राफिक चौराहा, कस्बा शिवरामपुर, कस्बा भरतकूप एवं कस्बा सीतापुर में भ्रमण कर चल रही वाहन चैकिंग का निरीक्षण किया गया एवं स्वयं खड़े होकर वाहनों को चैक कराया गया। यह वाहन चैकिंग अभियान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन महोदय के आदेशानुसार दिनांक 31.01.2021 की रात्रि में 12 बजे से 03 बजे तक चलाया गया। अभियान में वाहन चैकिंग की गयी जिसमें विशेषकर 04 पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिसमें विशेष रूप से देखा गया कि किसी वाहन में भारी मात्रा में रुपये तो नहीं हैं। इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल के थाना/चौकियों क्षेत्रों में सघन वाहन चैकिंग करायी गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पिता-पुत्री के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि कुमारी राखी सिंह पुत्री श्री ज्ञान प्रसाद निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता ज्ञान सिंह द्वारा उन्हे पढ़ाई के लिये खर्चा नहीं देते हैं व उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव व मुख्य आरक्षी अरुण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। पुत्री के भरण पोषण व पढ़ाई के खर्चे हेतु रुपये देने की बात पर पिता सहमत हुआ। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 01.02.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पिता-पुत्री को आपस में सामन्जस्य बिठाकर व पिता को उनके कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्तो श्यामकली पत्नी गंगासागर निवासी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. महिला आरक्षी मोनिका

(5). आज दिनांक 01.02.2021 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार/प्रशिक्षण इकाई में 09 दिवसीय यूपी0 112 के रिफ्रेशर कोर्स के समापन के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा यूपी0 112 प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 19 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किये गये।

(6). राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज तथा प्राइवेट बस के चालक एवं परिचालकों को तथा अन्य मोटर वाहन जीप विक्रम इत्यादि चालकों को एकत्र कर सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी गोष्ठी की गयी। समस्त चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया साथ ही साथ बस चालकों को शराब के नशे में तथा नींद के होने पर गाड़ी न चलाने के लिए निर्देशित किया गया। यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित करते हुए यातायात नियमों के पूर्णता पालन करने हेतु शपथ दिलाई गईयी। दोपहिया चालकों को चेक किया गया बिना हेलमेट वाले चालकों का चालान किया गया तथा उन्हें हेलमेट लगाकर चलने हेतु निर्देशित किया गया। पैदल चलने वाले यात्रियों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया साथ ही साथ उन्हें यह अवगत कराया गया कि अपने गांव और मोहल्ले वालों को भी पंपलेट पढ़ाएं तथा यातायात नियमों के प्रति दिए गए निर्देशों के प्रति उन्हें भी प्रेरित कर जागरूक करें।

(7). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 01.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बांधी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ, शिवपुर तिराहा, शिवकुमार इण्टर कॉलेज मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर राजकीय इण्टर कॉलेज मानिकपुर व कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी व रेलवे स्टेशन मारकुण्डी, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुनहापुरवा में जाकर, एण्टी रोमियो थाना राजापुर द्वारा कस्बा राडापुर में बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।